



Lalit Singh



Nile

Model: Horoscope-Matching

Order No: 121440601


पुल्लिंग :	लिंग	: स्त्रीलिंग
30-31/12/1987 :	जन्म तिथि	: 27/11/2001
बुध-गुरुवार :	दिन	: मंगलवार
घंटे 01:05:00 :	जन्म समय	: 22:17:00 घंटे
घटी 44:25:17 :	जन्म समय(घटी)	: 38:13:49 घटी
India :	देश	: India
Ajmer :	स्थान	: Ajmer
26:29:00 उत्तर :	अक्षांश	: 26:29:00 उत्तर
74:40:00 पूर्व :	रेखांश	: 74:40:00 पूर्व
82:30:00 पूर्व :	मध्य रेखांश	: 82:30:00 पूर्व
घंटे -00:31:20 :	स्थानिक संस्कार	: -00:31:20 घंटे
घंटे 00:00:00 :	ग्रीष्म संस्कार	: 00:00:00 घंटे
07:18:53 :	सूर्योदय	: 06:59:28
17:49:04 :	सूर्यास्त	: 17:38:28
23:41:23 :	चित्रपक्षीय अयनांश	: 23:52:43
कन्या :	लग्न	: कर्क
बुध :	लग्न लग्नाधिपति	: चन्द्र
मेष :	राशि	: मेष
मंगल :	राशि-स्वामी	: मंगल
भरणी :	नक्षत्र	: अश्विनी
शुक्र :	नक्षत्र स्वामी	: केतु
4 :	चरण	: 2
साध्य :	योग	: व्यतिपात
विष्टि :	करण	: बालव
लो-लोकेश :	जन्म नामाक्षर	: चे-चेतना
मकर :	सूर्य राशि(पाश्चात्य)	: धनु
क्षत्रिय :	वर्ण	: क्षत्रिय
चतुष्पाद :	वश्य	: चतुष्पाद
गज :	योनि	: अश्व
मनुष्य :	गण	: देव
मध्य :	नाड़ी	: आद्य
मृग :	वर्ग	: सिंह

ग्रह अंश एवं विंशोत्तरी

विंशोत्तरी	अंश	राशि	ग्रह	राशि	अंश	विंशोत्तरी
शुक्र 0वर्ष 6मा 24दि	21:37:45	कन्या	लग्न	कर्क	15:57:16	केतु 4वर्ष 11मा 18दि
राहु	14:52:45	धनु	सूर्य	वृश्चि	11:37:53	शुक्र
25/07/2011	26:17:21	मेष	चंद्र	मेष	03:52:19	16/11/2006
25/07/2029	00:27:02	वृश्चि	मंगल	मक	27:59:19	16/11/2026
राहु 06/04/2014	19:14:27	धनु	बुध	वृश्चि	07:35:45	शुक्र 17/03/2010
गुरु 30/08/2016	26:28:50	मीन	गुरु व	मिथु	20:46:44	सूर्य 17/03/2011
शनि 07/07/2019	16:51:41	मक	शुक्र	वृश्चि	00:07:50	चन्द्र 15/11/2012
बुध 23/01/2022	01:38:16	धनु	शनि व	वृष	18:05:00	मंगल 15/01/2014
केतु 11/02/2023	03:12:06	मीन व	राहु व	मिथु	03:25:39	राहु 15/01/2017
शुक्र 11/02/2026	03:12:06	कन्या व	केतु व	धनु	03:25:39	गुरु 16/09/2019
सूर्य 05/01/2027	03:54:09	धनु	हर्ष	मक	27:21:27	शनि 16/11/2022
चन्द्र 06/07/2028	14:03:05	धनु	नेप	मक	12:34:19	बुध 16/09/2025
मंगल 25/07/2029	18:16:42	तुला	प्लूटो	वृश्चि	20:51:39	केतु 16/11/2026

व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट


23:41:23 चित्रपक्षीय अयनांश 23:52:43



अष्टकूट गुण सारिणी

कूट	वर	कन्या	अंक	प्राप्त	दोष	क्षेत्र
वर्ण	क्षत्रिय	क्षत्रिय	1	1.00	--	जातीय कर्म
वश्य	चतुष्पाद	चतुष्पाद	2	2.00	--	स्वभाव
तारा	सम्पत	अतिमित्र	3	3.00	--	भाग्य
योनि	गज	अश्व	4	2.00	--	यौन विचार
मैत्री	मंगल	मंगल	5	5.00	--	आपसी सम्बन्ध
गण	मनुष्य	देव	6	5.00	--	सामाजिकता
भकूट	मेष	मेष	7	7.00	--	जीवन शैली
नाडी	मध्य	आद्य	8	8.00	--	स्वास्थ्य/संतान
कुल :			36	33.00		

कुल : 33 / 36



अष्टकूट मिलान

इस मिलान में नक्षत्र दोष भी विद्यमान है।

Lalit Singh का वर्ग मृग है तथा Nile का वर्ग सिंह है। इन दोनों वर्गों में परस्पर शत्रुता है।

अष्टकूट मिलान के अनुसार Lalit Singh और Nile का मिलान अत्युत्तम है।

मंगलीक दोष मिलान

Lalit Singh मंगलीक नहीं है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में तृतीय भाव में स्थित है।

Nile मंगलीक है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में सप्तम भाव में स्थित है।

यदि वर या कन्या की कुंडली में सप्तम भाव में मकर राशि में तथा अष्टम भाव में मीन राशि में मंगल हो तो मंगल का दोष नहीं होता है।

क्योंकि मंगल Nile कि कुण्डली में सप्तम भाव में मकर राशि में स्थित है अतः मंगलीक दोष प्रभावहीन हो जाता है।

**तनुधनुमदमायुर्लाभ व्ययगः कुजस्तु दाम्पत्यम्।
विघटयति तद् गृहेशो न विघटयति तुंगमित्रगेहेवा।।**

यदि मंगल स्व राशि अथवा उच्च का हो तो मंगली दोष भंग हो जाता है।

क्योंकि मंगल Nile कि कुण्डली में उच्च का है अतः मंगलीक दोष प्रभावहीन हो जाता है।

**शनिभौमोऽथवा कश्चित् पापो वा तादृशो भवेत्।
तेष्वेव भवनेष्वेव भौमदोषविनाशकृत्।।**

यदि एक की कुंडली में जहां मंगल हो उन्हीं स्थानों पर दूसरे की कुंडली में प्रबल पाप ग्रह (राहु या शनि) हों तो मंगलीक दोष कट जाता है।

क्योंकि राहु Lalit Singh कि कुण्डली में सप्तम भाव में स्थित है अतः मंगलीक दोष कट जाता है।

**त्रिषट् एकादशे राहु त्रिषट् एकादशे शनिः।
त्रिषट् एकादशे भौमः सर्वदोषविनाशकृत्।।**

वर या कन्या की कुंडली में से एक मंगलीक हो और दूसरे की कुंडली में 3,6,11 वें भावों में राहु, मंगल या शनि हो तो मंगलीक दोष समाप्त हो जाता है।

क्योंकि मंगल Lalit Singh कि कुण्डली में तृतीय भाव में स्थित है अतः मंगलीक दोष कट जाता है।

Lalit Singh तथा Nile में मंगलीक मिलान ठीक है।

निष्कर्ष

अष्टकूट एवं मंगलीक दोष न होने के कारण दोनों का मिलान उत्तम है।



अष्टकूट फलादेश

वर्ण

Lalit Singh का वर्ण क्षत्रिय तथा Nile का वर्ण भी क्षत्रिय है। अतः यह मिलान अति उत्तम मिलान है। जिसके कारण दोनों ही दम्पति अति ऊर्जावान्, साहसी, उद्यमी होंगे साथ ही दोनों एक-दूसरे के साथ सद्भाव एवं प्रेम से जीवन बितायेंगे। इसके अतिरिक्त समय-समय पर एक-दूसरे की सहायता से सुखी एवं समृद्ध परिवार का निर्माण करने में योगदान देते रहेंगे।

वश्य

Lalit Singh का वश्य चतुष्पद है एवं Nile का वश्य भी चतुष्पद है अतः यह मिलान अति उत्तम मिलान है। जिसके फलस्वरूप Lalit Singh एवं Nile दोनों के स्वभाव, पसंद एक समान होंगे तथा आपसी तालमेल काफी अच्छा रहेगा, जिससे परिवार में सुख, शांति एवं समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। दोनों के बीच अत्यधिक प्रेम की भावना भी बनी रहेगी।

तारा

Lalit Singh की तारा सम्पत तथा Nile की तारा अतिमित्र है। अतः तारा मिलान अनुकूल होने के कारण यह मिलान अति उत्तम मिलान है। इस मिलान के कारण उत्तम स्वास्थ्य, धन एवं समृद्धि का बनी रहेगी। इस विवाह से Lalit Singh एवं Nile दोनों के सौभाग्य के द्वार खुल जायेंगे। Nile एक अच्छे साथी की भूमिका अदा करने वाली होगी तथा अपने पति की हर प्रकार से समय समय पर मदद करती रहेगी। घर में प्रेम, शांति एवं सौहार्द का माहौल बना रहेगा। इनकी संतान भी काफी अच्छी होंगी तथा जीवन में सफलता प्राप्त करती रहेंगी।

योनि

Lalit Singh की योनि गज है तथा Nile की योनि अश्व है। अर्थात् दोनों की योनि समान नहीं हैं और इनके बीच उदासीनता का अर्थात् सम संबंध है। अतः यह मिलान औसत मिलान कहलायेगा। जिसके कारण दोनों के बीच आपसी समझबूझ का अभाव रहेगा तथा जीवन में सहयोग की भावना एवं प्रेम का अभाव भी बना रहेगा। दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होंगे तथा परिवार में तनाव तथा अशांति का भाव भी रह सकता है। साथ ही दोनों के बीच अविश्वास की भावना भी बनी रहेगी। दोनों एक दूसरे को संदेह की भावना से देखेंगे जिससे दोनों के बीच कटुता का भाव भी पैदा होगा। दोनों के बीच आपसी समझ की कमी भी रहेगी अतः दोनों के बीच वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। संभव है कि दोनों के बीच अवैध संबंध को लेकर संदेह की भावना बन जाये जिसके कारण पारिवारिक तनाव भी हो सकता है। बात-बात में दोनों के बीच में कभी कभी तर्क-वितर्क की जगह कुतर्क भी हो सकता है। वर या कन्या में से कोई भी विश्वासघात भी कर सकता है। जिसके कारण दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इनको अपने जीवन में अत्याधिक संघर्ष के उपरांत ही सफलता प्राप्त होगी

अतः कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बावजूद इनको अपने जीवन में सफलता कम ही मिलेगी। अर्थात् मेहनत अधिक और परिणाम कम ही मिलने की संभावना है। जिसके कारण दोनों को समय-समय पर मानसिक पीड़ा होती रहेगी। पारिवारिक आय औसत ही रहेगी। अर्थात् धनागम के स्रोत कम ही रहेंगे। पति-पत्नी के बीच विचारों में भिन्नता होगी एवं जीवन में उतार-चढ़ाव बने रहेंगे। दोनों लापरवाह प्रवृत्ति के होंगे किंतु परिवार के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। दोनों के बीच रोमांस एवं सेक्स में रुचि की कमी भी रह सकती है। कई बार वाद-विवाद में तर्क-वितर्क होते रहेंगे। जिसके कारण समय-समय पर धन हानि भी हो सकती है। आपस में प्रेम एवं सौहार्द की भी कमी रहेगी। इस प्रकार इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा न रहकर निम्न सामान्य स्तर का ही होगा।

मैत्री

अष्टकूट मिलान में ग्रह मैत्री कूट में Lalit Singh एवं Nile दोनों के राशि स्वामी समान हैं। अतः यह मिलान ग्रह मैत्री के विचार से अति उत्तम मिलान है। ज्यातिष की दृष्टि से यदि Lalit Singh एवं Nile दोनों के राशि स्वामी एक ही होने के कारण कुंडली मिलान में इसे अति उत्तम माना जाता है तथा पूरे 5 अंक प्रदान किए जाते हैं। जिसके कारण दोनों में असीम प्रेम बना रहेगा तथा साथ ही दोनों जीवन के हर क्षेत्र में एक-दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। इनका प्रयास रहेगा कि वे स्वयं को आदर्श दम्पति साबित कर सकें। इनके बच्चे योग्य, आज्ञाकारी, सफल एवं यशस्वी होंगे।

गण

Lalit Singh का गण मनुष्य तथा Nile का गण देव है। अतः यह मिलान उत्तम मिलान है। ऐसे मिलान में Nile सतोगुणी होंगी तथा उसका स्वभाव दयालु, मृदु, सौम्य तथा कोमल होगा है जो कि एक महिला का नैसर्गिक गुण है तथा अन्य सभी लोग भी इन्हीं गुणों की अपेक्षा करेंगे। जबकि दूसरी ओर Lalit Singh व्यावहारिक, मिलनसार, परिश्रमी, बुद्धिमान तथा महत्वाकांक्षी होंगे। जोकि इस भौतिकवादी, विश्व के पुरुष का नैसर्गिक गुण होता है। इन गुणों एवं योग्यताओं के कारण Lalit Singh अपनी पत्नी, बच्चों, परिवार एवं समाज की हर अपेक्षा को पूरा करने में सक्षम रहेंगे तथा सभी इनसे खुश भी रहेंगे।

भकूट

Lalit Singh एवं Nile दोनों की राशि एक समान ही है इसलिये यह अति उत्तम मिलान है। ऐसा मिलान Lalit Singh एवं Nile तथा परिवार के चतुर्दिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। इन्हें अनेक रूपों में ईश्वरीय कृपा जैसे - सौभाग्य, सम्पत्ति, समाज में मान-सम्मान तथा योग्य संतान आदि प्राप्त होगी।

नाड़ी

Lalit Singh की नाड़ी मध्य है तथा Nile की नाड़ी आद्य है। अर्थात् दोनों की नाड़ी समान नहीं है, जो कि अष्टकूट मिलान की दृष्टि से दोष मुक्त है। अर्थात् यह मिलान अति

उत्तम मिलान है। आद्य एवं मध्य नाड़ी का समन्वय अति उत्तम होता है क्योंकि यह जीवनी शक्ति को संतुलित करता है। तीनों जीवनी शक्तियों वात, पित्त एवं कफ का संतुलन जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अतः आपकी संतान उत्तम स्वास्थ्य, जनन क्षमता एवं स्वस्थ तथा बुद्धिमान संतान होंगी।



मेलापक फलित

स्वभाव

Lalit Singh तथा Nile दोनों की मेष राशि है। यह राशि अग्नि तत्व से युक्त है। अतः दोनों की एक ही राशि होने के कारण शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक स्तर यह मिलान उत्तम रहेगा तथा जीवन में एक आदर्श दम्पति के रूप में सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करने में ये समर्थ रहेंगे। इनके आपसी सम्बन्धों में भी मधुरता बनी रहेगी।

आप दोनों की राशि का स्वामी मंगल है। अतः इसके प्रभाव से आप दोनों के मध्य मित्रता एवं परस्पर सामंजस्य का भाव नित्य बना रहेगा। इसके प्रभाव से आप तेजस्वी उत्साही एवं स्वतंत्र प्रवृत्ति के होंगे तथा एक दूसरे के अस्तित्व को पूर्ण सम्मान प्रदान करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। जिससे पारिवारिक आप आवश्यक सुखोपभोग की सामग्री एवं उपकरणों को अर्जित करने में समर्थ रहेंगे एवं सुखपूर्वक इनका उपभोग भी करेंगे।

Lalit Singh और Nile दोनों का वश्य चतुष्पद है। इसके शुभ प्रभाव से इनकी अभिरुचियों में समानता रहेगी तथा आपस में किसी भी प्रकार के सैद्धान्तिक मतभेदों की न्यूनता रहेगी जिससे इनका दाम्पत्य जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत होगा। साथ ही दोनों का परस्पर आत्मिक स्नेह एवं प्रेम का भाव रहेगा तथा सांसारिक सुख में एक दूसरे को प्रसन्न तथा सन्तुष्ट करने में समर्थ रहेंगे जिससे परस्पर आकर्षण आसक्ति एवं सम्मिलन का भाव नित्य बना रहेगा।

आप दोनों का वर्ण क्षत्रिय है। अतः कार्यक्षेत्र में आपकी क्षमताएं समान होंगी। अतः आपस में न्यूनाधिक का भाव नहीं रहेगा। साथ ही दोनों सक्रिय प्रकृति के होंगे तथा किसी भी कार्य को उत्साह पराकम एवं परिश्रम पूर्वक करने में समर्थ रहेंगे तथा साहस पूर्वक जीवन में समस्याओं का सामना तथा समाधान करने में समर्थ रहेंगे। अतः अपने आत्मविश्वास एवं परिश्रम से आप सुखी जीवन व्यतीत करने में समर्थ रहेंगे।

धन

Lalit Singh की तारा सम्पत तथा Nile की तारा अतिमित्र है इसके शुभ प्रभाव से Lalit Singh सौभाग्यशाली तथा धनवान व्यक्ति होंगे तथा Nile के भाग्य से उनकी धन सम्पत्ति में नित्य वृद्धि होती रहेगी। भकूट का उनकी आर्थिक स्थिति पर सामान्य प्रभाव रहेगा तथा उससे आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। साथ ही मंगल का भी आर्थिक क्षेत्र पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार वे ऐश्वर्य एवं समृद्धि से युक्त होंगे तथा प्रचुर मात्रा में धनार्जन करके अपना जीवन व्यतीत करेंगे।

Lalit Singh और Nile को अनायास धन प्राप्ति की पूर्ण संभावना रहेगी तथा जीवन में वे समस्त भौतिक सुख संसाधनों का उपभोग करने में समर्थ रहेंगे। विशेष रूप से Nile का शुभ प्रभाव इनकी आर्थिक स्थिति पर रहेगा तथा सामाजिक स्तर पर भी उनका पूर्ण सम्मान रहेगा।

स्वास्थ्य

Lalit Singh की नाड़ी मध्य तथा Nile की नाड़ी आद्य है। अतः अलग अलग नाड़ियों में उत्पन्न होने के कारण नाड़ी दोष से ये मुक्त रहेंगे तथा इसका कोई दुष्प्रभाव इन पर नहीं पड़ेगा परन्तु मंगल की स्थिति प्रतिकूल रहेगी जिसके प्रभाव से Lalit Singh रक्त तथा पित्त विकार से परेशानी की अनुभूति करेंगे। साथ ही हृदय रोग संबंधी परेशानी भी होगी एवं रतिक्रिया संबंधी निष्क्रियता के भाव की भी उत्पत्ति की संभावना रहेगी जिससे दाम्पत्य जीवन में कलह तथा अशांति की संभावना उत्पन्न होगी। अतः उपरोक्त अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए Lalit Singh को हनुमान जी की नियमित पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार का उपवास करना चाहिए।

संतान

संतति के दृष्टि से Lalit Singh एवं Nile का मिलान उत्तम रहेगा। इसके प्रभाव से उनको उचित समय पर संतति की प्राप्ति होगी तथा इसमें अनावश्यक विलम्ब नहीं होगा। साथ ही बच्चों के जन्म के मध्य अंतर भी अनुकूल रहेगा जिससे उनका उचित पालन पोषण करने में समर्थ होंगे। इसके अतिरिक्त इनकी पुत्र एवं कन्या संतति संख्या भी समान होगी।

यद्यपि Nile का प्रसव सामान्य विधि से सम्पन्न होगा परन्तु इसके प्रति Nile के मन में कई प्रकार से भय एवं चिन्ता की भावना रहेगी जिससे वे अनावश्यक मानसिक तनाव की अनुभूति करेंगी। अतः Nile को चाहिए कि ऐसे अनावश्यक भय एवं चिन्ता से मुक्त रहें तथा नियमित रूप से अपना गर्भावस्था में डाक्टरी परीक्षण आदि करवाती रहें। इससे Nile सामान्य रूप से सुंदर स्वस्थ एवं आकर्षक बच्चों को जन्म देने में सफल होंगी तथा ऐसे समय में स्वयं भी स्वस्थ तथा शांति की अनुभूति करेंगी। Lalit Singh और Nile बच्चों से सन्तुष्ट तथा प्रसन्न रहेंगे तथा वे भी अपने क्षेत्र में स्व योग्यता बुद्धिमता तथा व्यवहार कुशलता से प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे तथा अन्य सामाजिक जन भी उनसे प्रभावित तथा प्रसन्न रहेंगे माता पिता के प्रति उनके मन में समान भाव से आदर तथा आज्ञाकारिता रहेगी तथा उनकी इच्छा के विरुद्ध वे कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं करेंगे। इस प्रकार Lalit Singh और Nile का पारिवारिक जीवन सुख शांति तथा आनंद पूर्वक व्यतीत होगा।

ससुराल-सुश्री

Nile के अपनी ससुराल के लोगों से संबंधों में वांछित मधुरता रहेगी परन्तु यदा कदा सास से कुछ मतभेद रहेगा जिससे उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तथापि यदि Nile धैर्य एवं बुद्धिमता से कार्य लें तो सास की सहानुभूति प्राप्त हो सकती है।

ससुर देवर एवं ननदों से Nile के संबंध मधुर रहेंगे तथा उनसे वांछित स्नेह एवं सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। ससुर की सुख सविधा एवं आराम का वह पूर्ण ध्यान रखेंगी तथा वे भी उसकी सेवा भावना से प्रसन्न तथा सन्तुष्ट रहेंगे। देवर एवं ननद से भी Nile का व्यवहार मित्रता पूर्ण रहेगा तथा वे भी Nile से प्रसन्न रहेंगे। इस प्रकार वह ससुराल के लोगों

से सामंजस्य स्थापित करके आनंदानुभूति प्राप्त करेंगी।

ससुराल-श्री

Lalit Singh तथा उनकी सास के आपसी संबंधों में विशेष मधुरता नहीं रहेगी तथा कई मामलों में उनके मध्य काफी प्रबल मतभेद समय समय पर दृष्टि गोचर होंगे। अतः यदि परस्पर सामंजस्य एवं बुद्धिमता के भाव का प्रदर्शन किया जाय तो इन मतभेदों में न्यूनता आएगी तथा आपसी संबंधों में मधुरता के भाव की वृद्धि होगी जिससे स्नेह एवं सम्मान का भाव बना रहेगा।

लेकिन ससुर के साथ में Lalit Singh के संबंध अच्छे रहेंगे तथा वह उन्हें अपने पिता की तरह मान सम्मान तथा सेवा का भाव प्रदान करेंगे। साथ ही समयानुसार वह Lalit Singh को अपनी ओर से बहुमूल्य तथा आवश्यक सलाह भी प्रदान करते रहेंगे एवं उन्हें अपने पुत्र के समान अपनत्व तथा स्नेह प्रदान करेंगे। साले एवं सालियों के साथ ही Lalit Singh के संबंध अच्छे रहेंगे तथा उनसे वांछित आदर सहयोग एवं सहानुभूति प्राप्त होती रहेगी। साथ ही उनसे सामंजस्य का भाव भी रहेगा। इस प्रकार ससुराल का दृष्टिकोण Lalit Singh के प्रति अनुकूल ही रहेगा।